



BOMIS BLACK BOARD

Session:2024-25

प्रिय अभिभावकगण ,

हार्दिक नमस्कार!

जैसे-जैसे हम एक नए चरण की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा दिल हमारे स्कूल में आपके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए अत्यधिक कृतज्ञता से भर गया है। आपका दृढ़ समर्थन हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण रहा है।

2024-25 के नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ, हम पुराने और नए दोनों तरह से सीखे गए अमूल्य पाठों पर विचार करते हैं। आपके विश्वास के कारण, एक साधारण शुरुआत से, हम एक संपन्न संस्थान के रूप में विकसित हुए हैं।

हम हमें सौंपे गए प्रत्येक बच्चे की क्षमता का पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पर आपका विश्वास हमें शिक्षा और समर्थन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सब मिलकर आगामी वर्ष को नए उत्साह और समर्पण के साथ स्वीकार करें। हम आपके बच्चे के भविष्य को आकार देने में आपके साथ साझेदारी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

हमारी जड़ों का विस्तार: हमारा सीनियर विंग:

हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इंदौर-देवास बायपास रोड पर अपनी उन्नत सुविधाओं और संसाधनों के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई अत्याधुनिक सुविधाओं वाली इमारत में अपनी कक्षाओं का विस्तार ग्रेड 8 तक कर दिया है। सरकार के पास. पॉलिटेक्निक कॉलेज. यह वृद्धि हमारे छात्रों के लिए व्यापक शिक्षा और बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम इस रोमांचक यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

स्कूल पुनः खुलना:

- ग्रीष्मावकाश के बाद नए सत्र का प्रारंभ: **बुधवार, 19 जून 2024।**

सज्जन अनुस्मारकः

कृपया सुनिश्चित करें कि कक्षाएँ शुरू होने से पहले पहली किस्त सहित सभी बकाया शुल्क का भुगतान कर दिया जाए

आचार संहिता

आगमन और बर्खास्तगी:

- जून, 2024से नियमित स्कूल समय:प्रातः 09:30बजे से अपराह्न 01:30बजे तक (प्री-स्कूल के लिए) -जूनियर विंग
- प्रातः 08:45से अपराह्न 03:00बजे तक)प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए - (सीनियर विंग
- छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल के समय का कड़ाई से पालन करें।
- जब तक यह अत्यावश्यक और अपरिहार्य न हो, छात्रों का जल्दी चयन नहीं रोका जाएगा।
- **प्री स्कूल वालों के लिए शनिवार को छुट्टी रहेगी जब तक:** सप्ताह में दो छुट्टियाँ हैं तो वह शनिवार कार्य दिवस होगा।

हमें पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है; छात्रों को कुछ शनिवारों को स्कूल आने की आवश्यकता हो सकती है (तदनुसार अग्रिम सूचना प्रदान की जाएगी)।

कोई पूर्व नियोजित गतिविधि/प्रतियोगिता/क्षेत्र यात्रा; तो छात्रों को उस शनिवार को रिपोर्ट करना पड़ सकता है।

- **प्राथमिक के लिए शनिवार का कार्यक्रम:** सभी शनिवार आधे दिन होंगे।

वर्दी और व्यक्तिगत सामान:

- छात्रों को प्रतिदिन स्कूल में निर्धारित उचित वर्दी (गर्मी, सर्दी और खेल) में आना होगा
- बच्चे के सभी सामानों पर उसके नाम का लेबल मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
- प्रीस्कूलर-बच्चे को वेल्क्रो स्ट्रैप लॉक वाले काले जूते पहनने होंगे



- प्राथमिक और मध्य-लड़के-फीते वाले काले जूते; लड़कियाँ - बकल वाले काले जूते।



• प्राथमिक और मध्य कक्षा के छात्रों को प्रत्येक **खेल पाठ के दौरान खेल की पोशाक और खेल के जूते पहनने होंगे** ।

• कृपया प्रतिदिन एक पानी की बोतल और दोपहर का भोजन भेजें।

• जब तक शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए कृपया कोई भी व्यक्तिगत सामान जैसे खिलौने, किताबें और स्टेशनरी स्कूल भेजने से बचें।

• कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा स्कूल में किसी भी प्रकार का फैसी और महंगा सामान, सोने/चांदी के गहने, घड़ियां आदि न पहने।

कृपया ध्यान दें कि व्यक्तिगत सामान के किसी भी नुकसान के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।

• लंबे बालों वाली लड़कियों को बांधना चाहिए। **केवल काले हेयर क्लिप/हेयर बैंड ही पहनने होंगे** ।

• लड़कों को छोटे ग्रून्ड हेयर कट कराने होंगे । किसी स्टाइलिश बाल कटवाने की अनुमति नहीं है।

• सभी विद्यार्थियों के नाखून कटे होने चाहिए। लड़कियों को नेल पेंट/मेहंदी लगाने की अनुमति नहीं है।

माता-पिता की सहभागिता संबंधी दिशानिर्देश:

• किसी भी चोट या दुर्घटना की स्थिति में, बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाता है और यदि माता-पिता की सहायता की आवश्यकता होती है, तो हम बच्चे को लेने के लिए माता-पिता को बुलाते हैं। यदि बच्चे को विशेष चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, तो माता-पिता की सहमति/अनुमति से हमारे जिम्मेदार स्टाफ सदस्यों द्वारा बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है।

• स्कूल बच्चों को कोई मौखिक दवा नहीं देता है।

• स्कूल में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मौखिक सज़ा देना **प्रतिबंधित** है।

• एक शैक्षणिक वर्ष में तीन औपचारिक अभिभावक शिक्षक संपर्क सत्र (पीटीएम) आयोजित किए जाते हैं।

• इन निर्धारित बैठकों के अलावा, माता-पिता पूर्व नियुक्ति के साथ किसी भी शनिवार को दोपहर 01:30 बजे से पहले शिक्षकों और प्रबंधन से मिलने के लिए स्कूल जा सकते हैं।

• स्कूल के साथ संचार स्कूल कार्यालय और छात्र पुस्तिका के माध्यम से किया जा सकता है।

• यदि आपको एसएमएस, ईआरपी, व्हाट्सएप और स्कूल से भेजे गए ईमेल के माध्यम से नियमित अपडेट नहीं मिल रहा है, तो कृपया स्कूल को रिपोर्ट करें और अपना ईमेल आईडी और संपर्क नंबर अपडेट करवाएं।

ईआरपी सिस्टम: स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर

- हमें अपना नया स्कूल ईआरपी सिस्टम शुरू करते हुए खुशी हो रही है!
- इसे दैनिक कार्यों को सरल बनाने और स्कूल डेटा को व्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; यह प्रणाली आपके लिए अपने बच्चे की प्रगति के बारे में सूचित रहना आसान बनाती है। यह प्रत्येक छात्र के लिए सुचारू स्कूल संचालन और इष्टतम शैक्षिक सहायता सुनिश्चित करता है।

घटनाएँ और उत्सव:

- विभिन्न वास्तविक जीवन के अनुभव/ सैर/क्षेत्र यात्राओं के लिए, माता-पिता को यात्रा का हिस्सा बनने के लिए छात्र पुस्तिका/डायरी में भेजे गए अपने बच्चे के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
- सभी आयोजन और उत्सव से संबंधित अपडेट छात्र हैंडबुक, ईआरपी और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे।
- कृपया संबंधित समारोहों के लिए उल्लिखित ड्रेस कोड का पालन करें।

भोजन और खाने की आदतें: K2 तक

- स्कूल द्वारा स्वस्थ भोजन (नाश्ता) प्रदान किया जाता है। (केवल प्रीस्कूलर)
- हम घर में पकाया हुआ, शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसते हैं। (जूनियर विंग)
- आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे के साथ दोपहर का भोजन (कृपया सूखे व्यंजन भेजें, तरल या अर्ध तरल भोजन भेजने से बचें) भेजें। यदि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, तो कृपया कक्षा शिक्षक को लिखित रूप से सूचित करें।
- सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा कार की बीमारी से बचने के लिए स्कूल वाहन पर चढ़ने से कम से कम आधे घंटे पहले दूध पी ले।

माता-पिता का कोना:

- कृपया प्रतिदिन छात्र पुस्तिका की जाँच करें और नोट्स, यदि कोई हो, स्वीकार करें।
- अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करें और कुछ न करने के बदले में उसे सजा के रूप में पेश करके अपने बच्चे में शिक्षक या स्कूल का डर पैदा करने से बचें।
- सुनिश्चित करें कि बच्चे को अच्छी नींद आए और वह रात में समय पर सोए ताकि स्कूल के घंटों के दौरान वह तरोताजा और ऊर्जावान रहे।
- अपने बच्चे को दिनचर्या में शामिल करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करें।

- सुनिश्चित करें कि बच्चा स्कूल आने से पहले सुबह नहाने, ब्रश करने सहित सभी स्नान कर ले।
- आपके बच्चे की लंबे समय तक अनुपस्थिति उसकी दिनचर्या को बिगाड़ देगी और स्कूल आने में परेशानी पैदा करेगी।
- कृपया समय की पाबंदी और अपनी उपस्थिति के संदर्भ में स्कूल के निमंत्रण का सम्मान करें।
- बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे स्कूल भेजने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी भी सर्दी-खांसी संक्रामक होती है।

शैक्षणिक :

- लेखन कौशल को नर्सरी सहित सभी ग्रेडों में पेश किया जाता है। इसलिए माता-पिता से अनुरोध है कि वे बच्चों को घर पर भी लेखन कौशल का अभ्यास करने में मदद करें।
- ग्रेड K1 और K2 के बच्चों को नियमित आधार पर अभ्यास असाइनमेंट दिए जाते हैं। माता-पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को अपना कार्य समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें और जहां भी आवश्यकता हो, उनका मार्गदर्शन करें।
- माता-पिता से अनुरोध है कि वे घर पर इन गतिविधि पुस्तकों के उपयोग की निगरानी करें; चूँकि बच्चे अपनी गतिविधि पुस्तकें पहले से ही भर लेते हैं।
- गतिविधि पुस्तिका में "अनुपस्थित" चिह्नित शीट को घर पर पूरा करना होगा। (यदि कोई हो)

परिवहन :

- हमारे स्कूल वाहन जीपीएस, सीसीटीवी और पैनिक बटन सक्षम हैं, हमने सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।
- यदि आपको लापरवाही से गाड़ी चलाने या सहायक कर्मचारियों से संबंधित किसी अन्य व्यवहार संबंधी चिंता का पता चलता है, तो कृपया तुरंत स्कूल को रिपोर्ट करें।
- यदि बच्चे को मोशन सिकनेस है, तो कृपया कक्षा शिक्षक को तुरंत लिखित रूप में सूचित करें।
- माता-पिता से अनुरोध है कि वे स्कूल वाहन सहायक कर्मचारियों को निर्देश न दें, बल्कि पिकअप या ड्रॉप, अनुपस्थिति, खराब स्वास्थ्य आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की चिंता या जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें।
- स्कूल वाहन में स्टाफ को फीस या कोई निजी सामान न सौंपें।

जन्मदिन का जश्न :

- स्कूल में बच्चे का जन्मदिन मनाना विकल्प भूमि अनिवार्य नहीं है।
- हम जन्मदिन वाले बच्चे को कैजुअल पोशाक पहनकर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

- आपके वार्ड के जन्मदिन पर स्कूल के समय के दौरान कोई केक नहीं काटा जाएगा या कक्षा में माता-पिता का दौरा नहीं होगा।
- बच्चा केवल अपने सहपाठियों के लिए कैंडी ला सकता है।

डिजिटल कनेक्टिविटी:

- माता-पिता से अनुरोध है कि वे हमारे साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से जुड़ें।
- कक्षा की गतिविधियों, घटनाओं और समारोहों, क्षेत्र यात्राओं, सामुदायिक सहायकों की यात्रा और अन्य की सभी नवीनतम तस्वीरें हमारे पेज पर नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं।
- हमारा फेसबुक लिंक: <https://www.facebook.com/DewasBomis>
- हमारा इंस्टाग्राम लिंक: <https://instagram.com/bomisdewas>
- हमारी वेबसाइट का लिंक: <https://birlaschooldewas.com>
- हमारा ट्विटर लिंक: <https://x.com/bomisdewas>
- हमारा Pinterest लिंक: <https://in.pinterest.com/birlaopenmindsinternational>

शुल्क नियम और विनियम:

- स्कूल शुल्क सालाना लिया जाता है और यहां उल्लिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार पांच आसान किस्तों में देय है:

किस्तों का विवरण भुगतान की देय तिथियां

किस्तों का विवरण	भुगतान की देय तिथियां
पहली किस्त	प्रवेश के समय
दूसरी किस्त	15 जून 2024 को या उससे पहले
तीसरी किस्त	15 अगस्त 2024 को या उससे पहले
चौथी किस्त	15 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले
पांचवीं किस्त	15 दिसंबर 2024 को या उससे पहले

स्कूल की फीस का भुगतान नकद, चेक या ऑनलाइन मोड का उपयोग करके किया जा सकता है।

- चेक शिवाय ग्लोबल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में काटा जाना चाहिए।

ऑनलाइन स्थानान्तरण के लिए बैंक विवरण:

प्री-नर्सरी से के-2 तक

खाता नाम: शिवाय ग्लोबल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी।-

खाता संख्या: 922020016870212

बैंक का नाम: एक्सिस बैंक लिमिटेड

शाखा का नाम: देवास मंडी शाखा

आईएफएससी कोड: UTIB0004517

ग्रेड- 1 और उससे ऊपर:

खाता नाम: बिड़ला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल।

खाता क्रमांक: 762201000388

बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक

शाखा का नाम: देवास मंडी शाखा

आईएफएससी कोड: ICIC0007622

ध्यान दें: कृपया भुगतान रसीद का स्क्रीनशॉट 62629-40004/9165000175 पर भेजें। एक बार भुगतान करने के बाद शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्रतिक्रिया:

ईमेल आईडी:

centrehead.dewas@birlaopenminds.com

centrehead2023@gmail.com

आप स्कूल की शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, प्रशंसा, शिकायत, सुझाव या चिंताओं के लिए हमें किसी भी समय उपरोक्त ईमेल पते पर लिख सकते हैं। प्रबंधन सीधे आईडी तक पहुंचता है और समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।

माता-पिता-बाल बंधन को मजबूत करने के लिए युक्तियाँ:

- एक दिनचर्या स्थापित करें:** एक सुसंगत दैनिक कार्यक्रम बनाएं जिसमें घरेलू काम, खेल और आराम के लिए विशिष्ट समय शामिल हो। एक संरचित दिनचर्या बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और विलंब कम होता है।
- स्क्रीन टाइम सीमित करें:** स्क्रीन टाइम पर उचित सीमा निर्धारित करें और अपने बच्चे द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री की निगरानी करें। अत्यधिक स्क्रीन समय अध्ययन की आदतों और नींद की गुणवत्ता में हस्तक्षेप कर सकता है।
- धैर्य रखें और समझें:** समझें कि प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है और रास्ते में चुनौतियों का सामना कर सकता है। धैर्य का अभ्यास करें और कठिन समय के दौरान सहायता प्रदान करें।

4. **नियमित ब्रेक को प्रोत्साहित करें:** फोकस बनाए रखने और बर्नआउट को रोकने के लिए ब्रेक महत्वपूर्ण हैं। अपने बच्चे को अध्ययन सत्र के दौरान आराम करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उत्पादकता और जानकारी को बनाए रखने में सुधार हो सकता है।
5. **पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दें:** कम उम्र से ही आनंद के लिए पढ़ने को प्रोत्साहित करें। पढ़ने से शब्दावली, समझ और आलोचनात्मक सोच कौशल बढ़ता है, जो अकादमिक सफलता के लिए मौलिक हैं।
6. **सकारात्मक सुदृढीकरण का अभ्यास करें:** अपने बच्चे के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानें और उनकी प्रशंसा करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। सकारात्मक सुदृढीकरण बच्चों को कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित करता है और उनके आत्म-सम्मान का निर्माण करता है।
7. **समय प्रबंधन कौशल सिखाएं:** अपने बच्चे को उनकी गतिविधियों और असाइनमेंट को शेड्यूल करने के लिए योजनाकारों या डिजिटल कैलेंडर का उपयोग करके समय प्रबंधन कौशल विकसित करने में मदद करें। समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखना शैक्षणिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और तनाव कम करता है।
8. **उनकी शिक्षा में शामिल रहें:** स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेकर, शिक्षकों के साथ संवाद करके और उनकी प्रगति के बारे में सूचित रहकर अपने बच्चे की शिक्षा में रुचि दिखाएं। आपकी भागीदारी आपके बच्चे को दिखाती है कि आप उनकी शिक्षा को महत्व देते हैं और उनके शैक्षणिक प्रयासों का समर्थन करते हैं।
9. **स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करें:** उचित पोषण, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि सहित एक स्वस्थ जीवन शैली, शैक्षणिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को संतुलित आहार मिले, पर्याप्त नींद मिले और वह बाहर समय बिताए।
10. **उन्हें मदद माँगना सिखाएँ:** अपने बच्चे को मदद माँगने के लिए प्रोत्साहित करें जब उन्हें कुछ समझ में न आए, चाहे वह आपसे हो, शिक्षक से हो या ट्यूटर से हो। मदद माँगना सीखना एक मूल्यवान कौशल है जो निराशा को रोक सकता है और समझ में सुधार कर सकता है।

हमारे छात्रों को एक शानदार वर्ष की शुभकामनाएँ!
आइए उत्साह और समर्पण के साथ अपनी यात्रा जारी रखें।
सबको सौभाग्य प्राप्त हो!